

SHL/SEC/20213 The Bombay Stock Exchange Ltd Listing Department, 1<sup>st</sup> floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

The Calcutta Stock Exchange Ltd. 7, Lyons Range Kolkata - 700 001 India

04.09.2023

Scrip Code: 537253 at BSE

Dear Sir/M'am,

Sub: (i) Intimation of Book closure date
 (ii) Publication of Book closure date and intimation of dispatch of notice of the 49<sup>th</sup> AGM-reg.

Ref: **Our earlier intimation dated August 30, 2023 for convening of Annual General Meeting** In continuation to our intimation dated August 30, 2023 of convening the 49<sup>th</sup> Annual General Meeting of the company on Wednesday September 27, 2023 at 12:30p.m. P.M./IST through Video Conferencing (VC)/ other Audio Visual Means (OAVM) for which Registered office of the Company at 38E/252A, Vijay Tower, 3<sup>rd</sup> floor, Panchsheel Commercial Complex, Shahpur Jat, New Delhi-110049, shall be deemed as the venue for the meeting. We wish to inform you that dispatch of notice of the AGM **was completed on September 02, 2023.** 

Publication of Book closure date pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act which will be started from Thursday, 21.09.2023 to Wednesday, 27.09.2023 (both days inclusive) and completion of dispatch of Notice of AGM was published both in English and Hindi version on September 03, 2023 in the Pioneer newspaper. An electronic of newspaper clipping is enclosed. This is for your information and record please.

Thanking you, Yours sincerely, **For SUNIL HEALTHCARE LIMITED** 

SATYENDU PATTNAIK COMPANY SECRETARY F7736

Encl: Newspaper clipping.dt. 03.09.2023

Sunil Healthcare Ltd.

38E/252-A, Vijay Tower, Opp Panchsheel Park Comm. Complex, New Delhi -110049

T: +91 -11-49435555/00, F: +91 -11-43850087 Email : info@sunilhealthcare.com, Web: www.sunilhealthcare.com CIN No. : L24302DL1973PLC189662



# Windfall profit tax Commerce Ministry recommends anti-dumping duty on crude oil cut

Levy on diesel, ATF exports hiked

### PTI NEW DELH

 $T^{
m he\ government\ has\ cut\ the\ windfall\ profit\ tax\ on\ crude}$ oil produced in the country while the levy on exports of diesel and ATF has been hiked, an official notification said.

The tax, levied in the form of special additional excise duty or SAED, on domestically produced crude oil was reduced to Rs 6,700 per tonne from Rs 7,100 a tonne. SAED on the export of

diesel was increased to Rs 6 per litre from Rs 5.50 a litre and on jet fuel or ATF to Rs 4 per litre from Rs 2, the notification said.

SAED on export of petrol will continue to be zero.

The new tax rates came into effect from Saturday, the order dated September 1, said. India first imposed windfall profit taxes on July 1 last

year, joining a growing number of nations that tax supernormal or nations that tax superhorman profits of energy companies. At that time, export duties of Rs 6 per litre (USD 12 per barrel) each were levied on petrol and ATT and Pe 12 a there (USD 26 ATF and Rs 13 a litre (USD 26 a barrel) on diesel. A Rs 23,250 per tonne

(USD 40 per barrel) windfall profit tax on crude oil pro-duced by companies such as Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) was also

Members are hereby informed that:

September, 2023 (both days inclusive)

Date: 02/09/2023

The tax rates are reviewed every fortnight based on aver-age oil prices in the previous

two weeks. A windfall tax is levied on domestic crude oil if rates of the global benchmark rise above USD 75 per barrel. Export of diesel, ATF and petrol attract the levy if product cracks (or margins) rise above USD 20 per barrel.

Product cracks or margins are the difference between crude oil (raw material) and finished petroleum products. International crude oil

levied

prices averaged USD 86.43 per barrel in August, up from USD 80.37 in the preceding month and USD 74.93 a barrel in June. The levy on domestic crude oil dropped to nil in the first half of April as interna-

**ROTOGRAPHICS (INDIA) LIMITED** 

CIN: L74899DL1976PLC008036 Regd. Office: Unit No 8, Ground Floor, Pocket M, Sarita Vihar, New Delhi-110076

Website: www.rotoindia.co.in Email: info@rotoindia.co.in Phone: 011-47366600 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

EXERCISE OF ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 48th. Annual General Meeting ("AGM") of the members of Rotographics (India) Limited
("the Company") will be held on Friday. September 29, 2023 at 10:30 a.m. through. Video Conferencing (VC)/ Other
Audio-Visual Means ('OAVM') ("the Meeting") as per provisions of the Companies Act. 2013 and Rules made thereunder and
SEBI (Listings Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the Ministry of Corporate Affairs ("MGA")
circular dated April 8, 2020 and April 3, 2020 and April 3, 2021 and May 5, 2022 (Otlocively roteriora to as
MCA circulars) and SEBI circular dated May 12, 2020 Jan 15, 2021 and May 13, 2022 To transact the businesses as set out in
the Notice of He Notice of the AGM along with Annual Report and Annual Accounts for the Financial
Year 2022 23 (the 'Annual Report') of the Company has been sent electronically to the members to their registered mai
address with the Depositiones' Company. These documents car also be downloaded from the Company's website Link
www.rotoindia.co.in and the website of the Stock Exchange where shares of the Company are listed i.e. Bombay Stock
Exchange at www.beindia.com. Members holding share either in physical or demat form, on the cut-off date i.e. Friday,
22nd September, 2023 shall cast their vote electronically through the electronic voting system of NSDL at
www.voting.nsdi.com.

The remote e-voting period shall commence on Tuesday, 26th September, 2023 at 9:00 a.m. and ends on Thursday, 28t September, 2023 at 5:00 p.m. The Cut off date for the remote e voting process is Friday, 22nd September, 2023. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2023 to 29t

September, 2023 (noin days inclusive) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL beyond 5:00 p.m. on 28th September, 2023 and once the votes, on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for e-voting will also be made available during the AGM and those members present in the AGM through VC/OAVM facility who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAV facility but shall not be entitled to cast their votes again. Only presens whose name is recorded in the register of memo-or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility or more e-voting or e-voting at the AGM.

Any Person, who acquire shares and become members of the Company after dispatch of Notice of AGM but before cul-date of Finday. 22nd September 2023 may obtain their USER ID and password for remote e-voting by sending a request evoting@mstklice.in info@mstklinetra.com or info@mstanida.com. The detailed procedure for remote e-Voting before and during the AGM is provided in the Notes to the Notice of the AGM

Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on <u>evoting@nsdl.co.in</u> / 022 - 4886 /000 an 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Abhishek Mishra National Securities Depository Limited at the designated email is evoting@nsdl.co.in

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through remote e-voting or by e-voting AGM.



tional crude oil prices fell but was back in the second half in step with a rise in rates.

Levy on diesel became nil in April but the levy was brought back in August. Levy on ATF became nil in March and was brought back in second half of August. The export tax on petrol

was scrapped in the very first

crude oil pumped out of the ground and from below the seabed is refined and convertarea of 0.4 SqM or less' origied into fuels like petrol, diesel and aviation turbine fuel China (ATF). Reliance Industries Ltd, which operates the world's largest single-location oil refin-ery complex at Jamnagar in Gujarat, and Rosneft-backed an association of safety/spe-ciality glass processors, had filed an application to initiate the anti-dumping investiga-Nayara Energy are primary exporters of fuel in the countion.

Commerce Ministry on imports of Chinese glass



PTI NEW DELHI

he commerce ministry has recommended anti-dump-I recommended anti-dump-ing duty of up to USD 243 per tonne of import of Chinese glass used in home appliances with a view to guard domestic players from cheap inbound shipments from the neighbouring country.

The finance ministry will take a final decision on imposing the duty. Following a complaint by

The recommended duty ranges between USD 41.8 per a domestic player, the com-merce ministry's investigation tonne and USD 243 per tonne. Anti-dumping probes are arm Directorate General of Trade Remedies (DGTR) has investigated alleged dumping of

conducted by countries to 'toughened glass for home appliances having thickness determine whether domestic industries have been hurt between 1.8 MM to 8 MM and because of a surge in cheap imports. nating in or exported from As a countermeasure, they

impose these duties under the Federation of Safety Glass, multilateral regime of the Geneva-based World Trade Organization (WTO). The duty is aimed at ensuring fair trading practices and creating a level-playing field for domestic producers vis-a-vis foreign pro-

Uday steps down as MD and CEO of Kotak Mahindra Bank

### PTI 🔳 NEW DELHI

Uday Kotak, the founder and promoter of Kotak Mahindra Bank, has resigned as Managing Director and CEO of the private sector lender three months ahead of Reserve Bank's deadline. He has ceased to be the

Managing Director & CEO of the bank, with effect from September 1, 2023, on account of his resignation considered at the bank's board meeting held on Saturday. Kotak, whose holding in

the bank stands at 26 per cent, has become a non-executive has become a non-executive director of the bank, Kotak Mahindra Bank said in a regulatory filing on Saturday. As per the regulatory

mandate restricting a manag-ing director and chief executive's term to 15 years, the board of the bank had earlier this year decided to appoint Uday Kotak as the non-execu-tive director after his current

term ends in December. As an interim arrangeholder. We have an outstand-ing management team to carry the legacy forward. Founders go away, but the institution flourishes into perpetuity," he said. A long time ago, he said, "I saw names like JP Morgan ment, Dipak Gupta, the Joint Managing Director, will carry out the duties of the Managing Director & CEO until December 31, 2023, subject to the approval of the Reserve Bank of India and the members and Goldman Sachs dominate the financial world and

of the bank, it said. Taking to microblogging dreamed of creating such an institution in India. It is with site X formerly Twitter, Kotak said, "Succession at Kotak this dream that I started Kotak Mahindra 38 years ago, with 3 Mahindra Bank has been foreemployees in a 300 sqft office most on my mind, since our in Fort, Mumbai. I have deeply Chairman, myself and Joint cherished every bit of this MD are all required to step down by year-end. I am keen memorable journey, living my



sequencing these departures. I now a pre-eminent bank and initiate this process now and step down voluntarily as CEO." The bank awaits RBI financial institution, created

the bank since its inception,

attached to brand Kotak and

will continue to serve the insti-

tution as Non-Executive Director and significant share-

"As Founder, I am deeply

said.

on the basic tenets of trust and transparency, he said. "We have created value for our stakeholders and provide approval of the proposed suc-cessor who would take charge from January 1, 2024, Kotak, who has been MD and CEO of

over 1 lakh direct jobs. An investment of Rs 10,000 with us in 1985 would be worth around Rs 300 crore today. I am confident that this Indian-owned institution will continue to play an even more important role in India's transformation into a social and economic powerhouse," he said. Kotak Mahindra Bank is

among the few large private sector banks to have prominent promoter shareholders.

Kotak, in a handwritten message to the bank's Chairman Prakash Apte attached on X, said it is now time to move on and the deci-sion to resign three months ahead of the expiry of his term is with the view to sequencing this process from a transition and stability perspective. Incidentally, the term of

the bank's Chairman is also coming to an end on December 31, 2023.

Mindspace Business Parks

### dream. that dumping of the product is Kotak Mahindra Bank is ducers and exporters. to ensure smooth transition by Mindspace REIT acquires 0.24 mn sq ft leasable office space in Chennai for ₹181.6 cr

PTI III NEW DELH

Mindspace Business Parks REIT on Saturday said it has acquired 0.24 million square feet of leasable office space in Chennai for Rs 181.6 crore as part of its expansion plan

This strategic acquisition helps Mindspace REIT con-solidate its ownership in the project.

In a regulatory filing, the company said it has concluded a successful acquisition of around 0.24 million square

feet of leasable area at Commerzone Porur in



Chennai for Rs 181.6 crore. The name of the seller was Mindspace REIT, through its asset special purpose vehinot disclosed. With this acquisition, cle (SPV), now owns 100 per cent of the project with a total

Mindspace REIT's total leasable portfolio area grows from 32.1 leasable area of about 1.1 milmillion square feet to 32.3 million square feet.

The deal was funded and this acquisition provides us through debt. Vinod Rohira, Board with enhanced leasing options,

he added. Member, K Raheja Corp Investment Managers Pvt Ltd, Manager to Mindspace REIT, REIT, sponsored by K Raheja Corp group, was listed on the said, "This strategic acquisition aligns perfectly with our over-Indian bourses in August 2020. The REIT owns office arching strategy to exercise complete and comprehensive portfolios in the Mumbai Region, Pune, Hyderabad and control of our assets, enabling holistic planning and decision making across the portfolio." The quality office proper-ty, located in one of the promi-

Chennai. The pro-forma portfolio has a total leasable area of 32.3 million square feet comprising 26.1 million square feet of completed area, nent micro-markets of Chennai, is currently occu-2.5 million square feet area under construction and 3.7 pied by marquee global MNCs as well as domestic clients, million square feet of future development.





PTI NEW DELHI PTI VISAKHAPATNAM.

Biocon on Saturday said its unit has acquired Eywa  $\underset{\text{Plant logged its best ever}}{\text{R(RINL) or Vizag Steel}}$ Pharma Inc's oral solid dosage monthly sales of value-added

For Rotographics (India) Limited Sakshi Jain Company Secretary

By Order of the Board of Directors



**RUNGTA IRRIGATION LIMITED** CIN: L74899DL1986PLC023934 Registered Office: 101 Pragati Towers Rajendra Place, New Delhi-110008, India Tel.: +91-11:40453330/40453331/40453332; Contact Person: Mrs. Ayushi Vijay, Company Secretary and Compliance Officer, Email ID: cs@rungtairrigation.in; Website: www.rungtairrigation.in;

NOTICE OF THE 39th AGM AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

## lion square feet. SUNLOC

SUNIL HEALTHCARE LIMITED Regd. Office: 38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049 CIN-L24302DL1973PLC189662/Email ID: - info@sunilhealthcare.com/Web:- www.sunilhealthcare.com

Tel;-+91-11-49435555/00, Fax; +91-11-43850087

CIN-L24302DL19/3PLC189062/Email ID: - Info@swilline@itfncare.com/Web: www.sunine@itfncare.com Tej:+91-11-49435555/00, Fax; +91-11-43850087
NOTICE OF THE 49TH ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED TO BE HELD ON WEDNESDAY, THE 27TH SEPTEMBER, 2023 AT 12:30 EM./IST THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAW"), E-VOTING AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that the 49th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Wednesday, the 27th September, 2023 at 12:30 EM./IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAWM) for which Registered office of the Company at 38E/252A, Vijay Tower, 3rd floor, Panchsheel Commercial Complex, Shahpur Iat, New Delhi-110049, shall be deemed as the venue for the meeting to transact the businesses as set out in the AGM Notice.
Pursuant to General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April, 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2022, 02/2021 dated January, 13, 2021 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 2/2022 dated May 5, 2022, 02/2021 dated January, 13, 2022 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 2/2022 dated May 5, 2022, 02/2021 dated January, 13, 2021 and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 2/2022 dated May 5, 2022, 02/2021 dated January, 13, 2022 at a de December 28, 2022. Issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P2022/62 dated May, 13, 2022 and SEBI/HO/CFD/PDD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023
In compliance of the aforementioned circulars. Electronical Gonal January bit 20, 2012 (2014 dated January, 13, 2021 dated January 13, 2021 and procedure of Remote E- Voting/ Evoting, attending of the meeting through Video conferencing details, Annual Report for Financial year 2022-23 etc. has been sent electronically on Sattement as per section 102 of Companies Act, 2013, and procedure of Remote E- Voting/ Evoting, attending of the meeting through Video conferen

2015 and the Secretarial Standard on General Mee nt) Regulati ing issued by

The applicant has alleged

impacting domestic industries. In its findings after concluding the probe, the DGTR said that the product was exported to India at a price which is below the normal level and that has resulted in dumping which has impacted domestic makers.

"Accordingly, the author-ity recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports ... For a period of five years," according to the DGTR notification.

<ul> <li>NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 26th Day of September, 2023 at 01.00 PM (IST) THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAWI) to transact the business as set out in 39th AGM Notice in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made three under, read with MCA/SEBI Circulars without physical presence of members at common venue.</li> <li>In compliance with the circulars, the Notice of virtual AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 has been sent only by email to all those members with heave route without physical addresses with the Company or their respective Depository Participants which was completed on 02.09.2023. The e-copy of the notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2022-23 of the Company will be available on the website of the Company vis using an electronic vating system from a place other than that the venue of meeting (e-voting). The ompany has engaged NSDL to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Company and rules therefore are as under:         <ul> <li>I. E-voting period commences on Saturday, 23th September, 2023 at 9:00 A.M and ends on Monday, 25th September, 2023 at 5:00 P.M.</li> <li>The voting through be/CDAWM shall 30 minus before and after the scheduled time of the company as provide and use the ender as a under:             <ul> <li>The share transfer book of the Company with sensered basis.</li> <li>The share transfer book of the Company with sensered basis.</li> <li>The husinessons et rul in the notice of AGM may be transcarted through e-voting facility at the AGM.</li> <li>The share transfer book of the Company will were applicable of the Company as on the cut-off date i.e. 19th September, 2023, my positon to their shares of the paid up equity share capital of the compa</li></ul></li></ul></li></ul>	<ul> <li>Secretaries of India, members of the Company have been provided with the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the 49th Annual General Meeting (AGM) by electronic means through e-Voting services. The company have sengaged services of Linkinime India Private Limited for availing of Instavote platform for Casting the vote through "remote e-voting '/ e-voting.</li> <li>The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Wednesday, the 20th September, 2023, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic Instavote platform for Ink Intime India Priv.Lifch <u>through/InstaveLinkIntime.co.in</u></li> <li>Pursuant to SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies. Individual shareholders holding securities in demat mode can vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants only post 9th June, 2021. For detail Remote e-Voting Procedure, please refer Note no. 20 of the Notice of the 49th AGM.</li> <li>The members may note that:</li> <li>The members may note that:</li> <li>The remote e-voting period will commence at 9:00 A.M. on Sunday, the 24th September, 2023 and will end at 5:00 P.M. on Tuesday, the 28th September, 2023 and thereafter e-voting mode shall be disabled by Evoting agency.</li> <li>Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.</li> <li>The voting rights of Members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on cut-off date of Veenesday. 20th September, 2023, may obtain the login 1D and password by following the instructions of Benote e-voting given in Note no. 20 to the Notice of AGM.</li> <li>Any person, who acquiries shares of the company, and become member of the Company fare sending of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Wedne</li></ul>	(steel variety), which is the best ever sales milestone for this variety, and also logged similar performances in the sale of wire rod coils (79,000 tonne), rebars (2 lakh tonne) and structurals (46,000 tonne). "The sales volume of 1,57,000 tonne of value-added steel achieved in August 2023 by RINL is the best ever monthly sales of value-added steel sales for any month since inception," said the official in a press release. Including value-added steel products, Vizag Steel Plant achieved overall sales of Rs 2,502 crore in August 2023,	Administration) approved facility, our first in the US, will complement Biocon's existing
		Rs 2,502 crore in August 2023, which is 39 per cent higher	complement Biocon's existing manufacturing capabilities
10. A member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.	rta@alankit.com or lalitap@alankit.com. viii) for details instruction of e-voting and attending meeting through VC or OAVM, the members are requested go through	than Rs 1,806 crore logged in the corresponding period last	and strengthen our foothold in the US," Biocon Managing
Members who have not registered their email-id are requested to register the same by following the procedure given below:           Physical Holding         Register/update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agents of the Company, BETALT Innarial & Computer Services Pvt Ltd.           Members may download the prescribed forms from the Company's website at https:// www.rungtairrigation.in/ investor-information/download-categor/kycc-compliance-for-shareholders/	the notice of the meeting (especially note no.21). Notice is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain close from	year. Besides August highlights, the steel plant located in the	Director and CEO Siddharth Mittal said. The acquisition will also
Demat Holding         Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.           Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by NACH if declare by company in future.	Thursday, 21.09.2023 to Wednesday 27.09.2023 (both days inclusive) for the purpose of Annual Ĝeneral Meeting of the Company. By Order of the Board	port city of Visakhapatnam achieved the highest cumula-	enable the company to add oral solid dosage capacities for
All shareholders/members attending AGM through VC or OAVM, who wish to speak or pose questions shall register themselves and send	For SUNIL HEALTHCARE LIMITED	tive sales volume of value-	new products earlier than
their queries, if any, on or before 25th September, 2023 with their name, DP ID and Client ID / folio number, PAN, mobile number & number	Sd/- Regd. Office:	added steel products for the	originally planned and ensure
of shares and subject line should be Speaker Registration of Rungta Irrigation Limited at the e-mail id of the Company i.e.	SATYENDU PATTNAIK 38E/252A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049	five-month period of April-	continuity of supply through
cs@rungtairrigation.in For Rungta Irrigation Limited	COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER CIN No: 124302DL1973PLC189662 F7736 Phone No: +91-11-49435555/00 Fax no 011-43850087	August of the current financial	the diversification of manu-
Ayushi Vijay	Place - New Delhi Email ID: info@sunihealthcare.com	rear at 5.57 lakh tonne, the	facturing infrastructure, he
Place: New Delhi Company Secretary Date: 03.09.2023 M. No.: A55853	Dated - September 02, 2023 Web; www.sunihealthcare.com	elease said.	added.
Date: 03.09.2023 M. NO.: A55853			

यमुना एक्सप्रेसवे पर



# सपा और कांग्रेस को सिर्फ परिवार की चिंताः नड्डा

भाजपा अध्यक्ष ने गाजियाबाद से 'मेरी माटी-मेरा देश अभियान' की शुरूआत की, विपक्षी पाटियों पर बोला हमला

### पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजियाबाद से मेरी माटी-मेरा देश अभियान की शरुआत की। शनिवार को वह मोहननगर में शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर पहंचे और वहां से मिदी ली। इसके बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कल कुछ लोग मुंबई आए थे।

कौन थे ये लोग ये वो लोग थे, जो परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं। लालू को तेजस्वी, अखिलेश को डिंपल, सोनिया जी को राहुल की चिंता है। ये काहे की नेशनल पार्टियां ये तो परिवार की पार्टियां हैं, उन्होंने यह भी कहा उद्धव ठाकरे को किसकी चिंता है, महाराष्ट्र की या आदित्य की, शरद की पार्टी परिवार के कारण टटी।

तणमल कांग्रेस बंगाल के लिए नहीं. भतीजे के लिए है। लालू यादव की पार्टी में कोई बाहर का नाम नहीं दिखता। किसी पर रेल भर्ती जमीन घोटाले. तो किसी पर चारा घोटाले का आरोप है। नेशनल हेराल्ड केस में मां−बेटा जमानत पर चल रहे हैं। जेपी नड्डा ने

भौतिक धारण

अभौतिक धारण



मेरी माटी-मेरा देश अभियान के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद वीके सक्सेना व अन्य। चुटकी लेते हुए पूछा- मनीष सिसौदिया में शहीद हुए लोगों के घर जाएंगे। उनके आँजकल कहां हैं. अरविंद जी को नींद आती है, इन सब लोगों को देश से मतलब नहीं है। कि वो अकेले नहीं हैं। पूरा देश उनके साथ इन्हें अपने आप को बचाने से मतलब है। मेरी माटी-मेरा देश अभियान के बारे में बताते

Rungta Irrigation Limited

 $\mathbf{\Theta}$ 

रूंगटा इर्रिगेशन लिमिटेड

रुपटा इरिंगे शन लिमिटेड सीआई एव : एवन स्वकाल औए नाइब्द (स्वकाल से एवन कि 2005 मान पंजीवुध कामेश्वन : 105, पाठी (जन्मे, राजेवु के दूर्व (निकाल से 10008, मान) भोग : वना-न- वावकाइका / बावकाइका , मार्ग्ज जोनि : अभिने आयुषी नियस, कामने सोंग एवं अनुपालन सिलिसे हैं में का नहीं के ब्राग्न को सुदेश का प्रतिक्र के स्वान का स्वान के सिलिस् के स्वान अनुपालन सिलिसे हैं में का नहीं के ब्राग्न के नहीं के साथ का सुदेश कि बाव के साथ का स्वान के सिलिस् के से का साथ अनुपालन सिलिसे हैं में का नहीं के ब्राग्न ने का स्वान के साथ के सुवान के साथ के नियान हों, कामनी सीसिमिन, 2015 के लागू प्रवासनी और आई प्रदेशन साथनी (काएंसीए) की नायन से 30 प्रदेश प्रतिक्र के सुवान पर सरका की मीकि एसिसिकि के सित्र वाजी की जानी वादनियों सिलिस के वनुस्यम के जामार्थ (ब्राग्ने) प्रवीधन प्रवास के नियान हों, कामनी सीसिमिक कि सित्र वाजी की मीनिम, 2015 के लागू प्रवासनी और वादनियों सिलिस के वनुस्यम के जामार्थ (ब्राग्ने) प्रवीधन प्रवास के नियान हों, कामनी सीसिमिन, 2015 के लागू प्रवासनी और वादनियों सिलस के वनुस्यम के जामार्थ (ब्राग्ने) प्रवीधन प्रवेश के नियान पर सरका की मीकि एसिसिक के सित्र वजी को मोनी वादनी है, यो बानना है के वनुस्यम के जामार्थ (ब्राग्ने) प्रवीधन प्रवेश के स्वान पर सरका की मीकि एसिसिक के सित्र वजी की मोनी वा सुनी है, यो बानना है के वास प्रवास होती। वा सुनी है, यो बानना है सिलाल प्रवास होती। वा सुवान ही के स्वान प्रवास होती। वा स्वान हे स्वाराप्त हा सिलनान द्वर्यका के स्वान स्वान की आगासे एसीएम व जनके मार्थित कर हो हो सुदेश स्वाय वा सिर्व (ब्राग्ने) से द करा रही है। सरस्याम प्रयन्त वो से प्रवास प्रवार करवा को आगासे एसीएम व जनके मार्थन करने हुई कारी स्वान हो है। करना ने रियोन हू गुशिस साथ प्रवास स्वान स्वान के साथ जुद्ध कि साथ नही हो सिल्सन का प्रवीन करने हु हु आप स्वान के है (ब्राग्ने) का स्वान करने सुद करा रही है। सरस्याम प्रवन वोट बे कर के स्वान से साथ को साथ करी हो करना का प्रवीन करने हु हु सारित्य करा रही है। सरस्याम प्रवन वोट बे कर के स्वान से प्रवर क्रान का साथ करते हो हो सायना करते हुए आज क्या के दि हो ने की का सुतुर्य में रियोर हू-व्यारें म गुशिस

कम्पनी ने रिपोर्ट ई-चाटिय सुधिया उपलबा कपने हेतू एनएसडीएल के साथ अनुबंध किया है। कम्पनी आधानेयम, 2013 के पावसानी जार उसक मयमा अनुसंसम ने दिश्तार किस्पा निम्मुलास हें – 1. ई चोटिय अवसि शनिवार, 23 किसमर, 2023 को पूर्वा, 900 नवे आरंभ होनी पथा सोमवार, 25 सिरामर, 2023 को अप, 500 करे समाध होनी। 2. 26 सिरामर, 2023 को अप 500 करों के बाद इतेन्द्रीनिक सारानी द्वारा वोटिय की अनुमति नहीं होगा। 3. इतेपाल में तुराव में शुमीबद कारवार को निवार हे बोटिय कास ने द्वारा के अनुमति नहीं होगा। 4. कुमेला की शेयर आराम्य बीटेया बुधवार, 20 सिरामर, 2023 से मंगलवार, 26 सिरामर, 2023 को (दोन्दी दिन सहित) वासिक सामान्य बैठक को राज्य के राज्य के

, मोन/, जोश्योपीएए के माध्यम थे एजीएम से जुढ़ने की सुधिम केवठ आरंभ होने के नियरित स्थव से 30 मिनट पहले और बाद होना तथा सरस्यी को य दुनिय प्रथम आग प्रथम स्वात आयास पर उपलब होनी। 5. सरस्यों का लोटिंग अधिकार कट ऑफ लिटिंग 19 सितमद, 2023 को कमानी की मदत्तर गीशर पूर्वि के साथ उपनेत ताथ पारिय शेमर्स के अनुभाव में होगा होई जावित, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कमरने का सरस्य मतता है और कट-ऑफ लिपि, मो सितमर, श्वेमर्स के अनुभाव में होगा होई जावित, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कमरने का सरस्य मतता है और कट-ऑफ लिपि, में सितमर, 2023 को श्रेषर पारक है, व अध्योत्र के साधिकार का प्रधान करते हुए https://services.nstl.com/.el/1924 करने को लड़रोध है। देक के दीनन नीत/, आयिए के माध्यम हे ब्रे बेसुरोनि तोगहर के बेशिमास्त का प्रधान करते हुए https://services.nstl.com/.el/1924 करने का अनुरोध है कि के की दीनन नीत/, आयिए को माध्यम ही बेसुरोनि दोनारितम हो, दिन्ह शेरवास कर / सरस्थ के लॉगहन पोर्टिंग ने उपलब सोना का अनुरोध है कि के की दोनन नीत/, आयिए को माध्यम ही ब्रे बेसुरोनि दोनारितम हो, दिन्ह शेरवास कर / सरस्थ के लॉगहन पोर्टिंग ने उपलब सोना का स्थल प्रेसर हो के की दोनन नीत/, आया स्थार प्रेस के स्ट्रोन स्थार स्था के स्थार के प्रायम के स्थार के सार्थ के सार्थ के सार्थ ने प्रायम से कि सार्थ कर स्थान ही दोनारितम हो, दिन्ह ने क्या करने, हम के कॉगहन नो सितमें ने उपलब सोना का स्थान की का स्थान हो हो से सा जावित जो कट को स्था के सार्थ कर सार्थ के लॉगहन का सार्य करना की सार्थ के सार्थ करी की सार्थ कर सार्थ का की लिए की की सार्थ क

तेतु पुरिषा उपलेल नहीं तोगी नगीति एलीएग का आतीलन नीगी/ओएगिएग के मान्यम से किना जा रहा है। ऐसा व्यक्ति को कहर ऑक डिथि को सरस्य नहीं है, उसको देगीएग की तुम्बा जानकामी मान के निकास कामलों नाईएंगे के संबंध में किना जा रहा है। ऐसा व्यक्ति की स्वराय १/ ई-कोटिय तका नीगी/ओएगिएग के मान्यम से एनीएग में उपसिंकत होने के संबंध में किनी संदेह जयका शिकायत की स्थिते में, सरस्यमण श्री अमित किशात एलएससीएए, इंड यर्जन्द में हिंग, कागता सिल कम्पाउड, लोडर पड़ि, मुंबई-moors, इ-नेस क्लातिकी स्वार्टित की मार्स ' moo toro का तमा एलएससीएए, इंड यर्जन्द ' हिंग, कागता सिल कम्पाउड, लोडर पड़ि, मुंबई-moors, इ-नेस क्लाते कर सकते हैं। सिनें हे का मार्स ' moo toro का तम (काळ 2984) के सार्था के स्वार्ट के दा का अन्या सरस्या भी मुंबई-moors, इन्हें के स्वार्थ कि स्वार्ट के कम्पुट संसीधित था लि, आरटीए से DeetaintaSgmail.com पर कामत कोन संबर ' का 29867381 283, 28651801 कम पर समर्थ कर सकते हैं। सिनें हैं सिनें के सिन्ध नियर्थ के क्रिए उपसार प्रीर्थ की सुनान रहो। दाई के मोर्टन के स्वार्थ के कुछ पुत्रना साठी हैं, क्याम माइक्र सिर्फण्डल क्याताता क उपसार प्रीर्थ की स्वार्थ सिंह के बाय सिनें इ-नेसिंह के संबत के सुनान कि पर समर्थ कर सकते हैं। सिनें हैं सिनें के सिन्ध नियर्थ के कि उपसार प्रीर्थ की स्वार्थ का क्यान सिंह कर से कि क्या में से सिनें स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के सिंह के सिनें का सित स्वार्थ उपसार प्रीर्थ की सिंह का कि का क्यानी सरिक स्वार्थ के कि स्वार्थ की सिर्ट स्वार्थ स्वार्थ के सिंह प्रकार सिंह इन्हे सिंह के से का सिर्ह कर क्या स्वार्थ के सिंह के का स्वार्थ के सिंह प्रक्रिय के नीस एक नियस सिंह की का क्यानी सर्थ के स्वार्थ के सिंह में का सिंह के मान्द्र है। 9 परियानी की प्रीर्थ कार्य क्या स्वार्थ स्वीरकाम जवासीन पर्ट के मोर की आर प्री द दीने देश सिर्क हो की वेस्वाट स्वल्य स्वार्य हो होती। 10 सरस्य सिर्त है तीरी के माप्या से अपने सतायिकर का प्रधान करने के बाद भी एतरिय में भाग ने सकता है, परंतु नेक दी सार वोट तानने की अनकी स्वार्य स्वार्य हो तीरी।

प्रभाग वितरण नगानी के रवितरहर एवं शेतन द्वांसकर एवंतन, नीटल काइनेशियल ऐक नगपहर सामि भाषा शेतन काईएसवार-न तथा जन्म वस्तु प्रका में प्रवीकृत्/प्रकान करताए। सदस्याण नियमित प्रभा जन्म की ने क्वांस्ट https://www.rungtairrigation.in/investor-information/do

, पदस्तों ने अपनी ई मेल आईडी पंजीनद नहीं करवाई है, उनसे अनुरोध है कि उसके पंजीकरण हेतु निम्नवर्णित प्रक्रिया का पालन

हतु बद रहगा। 'ओएपीएम के माध्यम से एजीएम से जहने की संविधा बैटक आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट घहले और बाद होगा तथा सदस्यों को थ



पट्टिका लगेगी। हर वार्ड और नगर पंचायत में नड्डा ने कहा, श्राष्ट्रभक्तों को याद करना ही 75.75 पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे अक्टूबर-इसका मकसद है। हम वार्ड, गांव, नगर 23 के आखिरी में दिल्ली पहुंचेंगे, जहां इन्हें पंचायत तक जाएंगे। देश की प्रत्येक फोर्सेज अमृत वाटिका में लगाया जाएगा। यूपी से अमृत वाटिका में उन्होंने पौधारोपण भी किया

कुल 8 हजार मिट्टी से कलश भरकर दिल्ली पहुंचाए जाएंगे। जेपी नड्डा ने कहा, 10 साल पहले जब मैं गाजियाबाद के मोहननगर आता था, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं दिल्ली से कौन सी दनिया में जा रहा हं। आज तमाम रोड हैं। ब्रेंक मारने तक की जरूरत नहीं पडती। यही परिवर्तन है। गाजियाबाद के बगल में एशिया का सबसे बडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उन्होंने कहा 9 साल में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। स्टील उत्पादन में 14वें से दूसरे नंबर पर आ गया। ऑटोमोबाइल में जापान को

पछाडकर तीसरे स्थान पर है। 97 फीसदी मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं। इससे पहले जेपी नड्डा शनिवार सुबह गाजियाबाद पहुंचे। साहिबाबाद इलाके उन्होंने श्मेरी माटी मेरा देश अभियान का शभारंभ किया। जेपी नड्डा ने कुपवाड़ा में शहीद हुए मेजर मोहित शर्मा के घर से मिट्टी लेकर कलश में भरी। इस दौरान आस.पास के घरों से भी मिट्टी एकत्र की गई। यहीं पर एक

है। नड्डा जिन शहीद मेजर मोहित शर्मा के घर मिट्टी ली, वो देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। 13 जनवरी 1978 को पैदा हुए मोहित 1995 में सेना में भर्ती हुए थे। मोहित को बेस्ट बटालियन कैडेट चना गया था।

21 मार्च-2009 को मेजर मोहित शर्मा की पोस्टिंग कपवाडा में थी। एक मठभेड में उन्होंने दो आतंकियों को देर किया और अपने दो साथियों की जान बचाई थी। इस दौरान वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। 26 जनवरी 2010 को शहीद मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। साल-2012 में गाजियाबाद की एक सडक का नाम मोहित शर्मा के नाम पर रखा गया। 2019 में राजेंद्रनगर मेटो स्टेशन का नाम शहीद मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन रखा गया। साल-2021 में गाजियाबाद में करण गेट पुलिस चौकी चौराहे पर मेजर मोहित शर्मा को एक मर्ति भी लगाई गई, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। देश के वीरों को सम्मान देने के लिए मेरी माटी-मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है।



### <u>पायनियर समचार सेवा। नोएडा</u>

एक से दो महीने में मौसम बदलेग और ठंड बढेगी। इसके साथ यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरा बढ़ेगा। दुर्घटना भी बढ़ सकती है। इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पायलट प्रोजेक्ट पर दो वाच टावर लगाए गए थे।

जॉइंट सीपी आनंद कुलकर्णी ने बताया कि अब टावरों को संख्या बढाकर 10 की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट से जेवर टोल करीब 50 कीमी में ये वॉच टावर लगाए जाएंगे। इसमें दोनों साइड प्रत्येक 10.10 ज्ञड पर वॉच टावर होगा। इन टावर की ऊंचाई करीब 15 फीट रखी गई है। जिस पर कैमरे और दूरबीन लगाई जाएगी। यहां यलो लाइट का प्रयोग होगा। सभी वॉच टावर एक दसरे से इंटरनल लिंक होंगे। ताकि कोई भी सचना का आदान प्रदान तरंत किया जा सके। उदाहरण के तौर पर यदि कोई एक्सीडेंट जीरो पाइंट से 5.6 किमी पर होता है। सभी टावरों को अलर्ट पहुंच जाएगा और यहां ट्रैफि क को रोक दिया जाएगा। कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके जरिए यातायात को भी सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा। यानी ऐसा समझे के सीसीटीवी कैमरों के अलावा अब एक्सप्रेस वे के 50 किमी की मैन्यू वली सर्विलांस होगा। इन वॉच



सेट, दूरबीन और सर्विलांस से जुड़े रहेंगे की डियूटी लगाई जाएगी। यानी 24

घंटे एक्सप्रेस वे की निगरानी की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से रफ्तार का नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों की संख्या बढी है। बीते साल की तुलना में इस साल प्रत्येक माह में अधिक चालान हुए हैं। पिछले वर्ष 1205 चालान हुए थे। इस वर्ष अब तक 1560 चालान हो चुके हैं। चालान की जद में आए ज्यादातर वाहनों की गति 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा

दर्ज की गई थी। हल्के और भारी वाहनों के लिए अलग-अलग गति सीमा निर्धारित यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के और भारी वाहनों की अलग.अलग गति सीमा निर्धारित है। इसमें हल्के वाहनों की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तय है। इससे अधिक गति में वाहन दौडते मिलने पर चालान किए जाते हैं।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रति घंटा पांच से दस किलोमीटर अधिक रफ्तार पर चालान नहीं होते हैं। यदि रफ्तार इससे भी ऊपर पहुंच जाती है तो चालान किए जाते हैं। वहीं सर्दियो में इसकी स्पीड लिमिट 60 किमी प्रतिघंटा तक की जाती है। वॉच टावर पर तैनात पलिसकर्मी मोबाइल यूनिट, डायल 112 और सर्विलांस टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे।

## प्राधिकरण के सीइओ ने लगाया जनता दरबार ● बीस दिन के अंदर सभी शिकायतों का निपटारा करने का दिया आदेश पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा प्राधिकरण की ओर से समाधान दिवस का आयोजन सेक्टर-47 सामुदायिक केंद्र में किया गया। इस मौके पर सेक्टर-38ए सेक्टर-51, सेक्टर-96 और सेक्टर-100 के निवासियों की समस्याओं को सना गया और उनका समाधान किया गया।

समाधान दिवस में सीईओ लोकेश एम के अलावा प्राधिकरण के तीनों एसीईओ, ओएसडी और एडीसीपी मौजद रहे। सीईओ ने कहा जो भी समस्या है उनका निपटारा करते हुए 20 दिन बाद कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अधिकतर सेक्टरों में खले नाले व भमिगत नालों से सीवर ओवर फ्लो होना, खुलै नालों की साफ-सफाई नहीं होना, नालों को ढकने व खुले नालों में कचरा होने



दुरुस्त करने के लिए सलाहकार कंपनी नियुक्त कर सर्वे कराने के लिए कहा गया। आरडब्ल्युए पदाधिकारियों ने सेक्टर के पार्क व ग्रीन बेल्ट के रखरखाव, चार दिवारी की मरम्मत, बैंच, झले, पेडों की कटाई छटाई, बरसात में पार्क में पानी की निकासी की समस्या से अवगत कराया। सीईओ ने निर्देशित किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने. ग्रीन बेल्ट आसपास लगे छोटे पेड़ों में ट्री गार्ड लगाने, लाइटिंग करने के निर्देश दिए गए।

# टावर पर 8.8 घंटे पुलिस कर्मियों

### डेल्टन केबल्स लिमिटेड सीआईएनः एल31300डीएल1964पीएलसी004255

पंजी. कार्यालय : डेल्टन हाउस 4801, भरत राम रोड 24 दरियागंज, नई दिल्ली – 1100 वेबसाइट : www.deltoncables.com, ई—मेल : cs@deltoncables.com

सूचना

### (डेल्टन केबल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

मुनुना (डेल्टन केवल्स लिमिटेड के इवियटी शेयरधारकों के ध्यानाश्र) एवद्वारा युवना दी जादी कि केटल केवल सिफिट के सदस्ती की कात्ताजनवीं (क्रयी) वार्षिक सामान्य रेक (प्रविश्व), गनिवर, 50 सितमर, 2023 के पूरी. 1.00 करों, कम्पनी वीविनेया, 2013 के लागू प्राथानों एवं तर्याने दिवीस्त निरमा से को पुरीवान चारिव और प्रकटोकरण कोधारों) विनियमाबती, 2015 सम्य पाया पर दोगोंदित, के साथ परित कार्पेंट नांत्रवा द्वारा पा प्रकुल नरंस 1.2020. दिनोंकित को केल (प्रविश्व), गनिवर, 50 सितमर, 2023 के पुरी 1.100 करों, कम्पनी वीविनेया, 2013 के लागू प्राथानों एवं तर्याने दिवीस्त निरमा तेका कार्पेंट नांत्रवा द्वारा जाने प्रकुल नरंस 1.2020. दिनोंकित को केंद्र, 2020. सर्वुल नंसर 17/2020. दिनोंकित 15 जरित, 2020. सर्वुलर नंसर 20/2020. दिनोंकित केंद्र, 2020. सर्वुलर नंसर 21/2020. दिनोंकित 15 द्वार्य, 2020. सर्वुलर नंसर 20/2020. दिनोंकित 15 जावरी, 2021. प्रवुलर नंसर 21/2021. दिनोंकित 31 दिसम्बर, 2020. सर्वुलर नंबर 19/2021. दिनोंकित 15 जावरी, 2021. प्रवुलर नंबर 21/2021. दिनोंकित 31 दिसम्बर, 2020. सर्वुलर नंबर 20/2020. दिनोंकित 15 जावरी, 2021. प्रवुलर नंबर 21/2021. दिनोंकित 31 दिसम्बर, 2021. सर्वुलर नंबर 19/2021. दिनोंकित 16 स्वमर, 2022. सर्वुलर नंबर 10/2022 पाला 11/2022. टिनोंकित 15 यर्च, 2023 सार स्वुल, नंबर सेते/ एरको/ नीएफडी/ पीएफडी/ रीकाईवार/ पी/2020/79 दिनोंकित 15 पर्च, 2021. सर्वुलन नंबर सेते/ एरको/ नीएफडी/ पीफरकी/ रीकाईवार/ पी/2022/19 दिनोंकित 15 जनवरी. 2023 सार सर्वुलर नंबर सेते/ एरको/ नीएफडी/ पीफरकी/ रीकाईवार/ पी/2022/11 दिनोंकित 15 जनवरी. 2023 सार सर्वुलर नंबर सेते/ एरको/ नीएफडी/ पीफरकी/ रोकाईवार/ पी/2022/11 दिनोंकित 15 जनवरी. 2023 सार सर्वुलर नंबर सेते नेलिक तोफडे 11 वारस्त, 2023 में सुनीब्द वाय्य प्रथा पा पा राद स्वार्य की गोतिक उपखिलि के वित्त निंद सारी पर्च की सर्वुलर (रार्कुल्त)) के वुदारल ने हा वित्ता वां वाय्य सेता की जाएगी। पारियॉत स्वारी स्वार्य सिर सार के सर्व सुनी के व्याला, नियान की पा या सर्व की की जीती व के 2022 हेतु सार्य कर नी सर्व सुत्त सारा का कम्पनी/ टिपॉकिटरीक के सास संजीक्त सी सार्य को कर्य तेल हा? को वारिय की जालगी तिका का देन्स सारात्य कि सात्त के सारसर्वा की द्वेतद्वितिक सि का संवी सर्वुतिक की होनसरा की तावित्य स्वार

जिन सदस्यों के पास शेयर भौतिक∕इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं और जिनका ई—मेल पता कम्पनी∕उनके संबंधि

दियोंजिटरी पार्टिसिर्पट्स के पास अयतन करना सकते हैं। कृपरा नोट करें कि उपशेलस रकते रहताओं को आगार पर ई मेल पता का अदातनिकरण/पंजीकरण केवल डिकीं एजीएम की सूतना तथा वर्ष 2022-23 के लिए पार्थिक रिपोर्ट मेजने के उद्देश्यार्थ होगा और तदुपरांत डिकीं एजीएम के तरकात पश्चात आरटीए के रेकार्ड से निश्चिम कर दिए आएंगे। अतएव आपको कपन्नी से सभी मांगी सुराना, जिनमें पार्थिक स्पीर्ट्स, युन्तान, सहलंबई द्वाता डिपालि हैं, इतेल्टोर्गिक विधिन के प्रत करने के लिए रेकार्ड में सथायी पंजीकरण के लिए उपरोक्ता दरतावेजों की हार्ड कॉयीज आरटीए के पास

### शराब की तस्करी को रोकेंगे चौकीदार **पायनियर समाचार सेवा।** नोएडा

#### गौतमबद्ध नगर में आबकारी विभाग अवैध शराब की रोकथाम को लेकर लगातार अलग–अलग अभियान चला रहा है। साथ ही शराब तस्करों के मीटिंग की गई। सभी चौकीदारों को निर्देशित

खिलाफकार्रवाई भी कर रहा है। तस्करी पर लगाम लगाने के किया गया कि अवैध शराब से लिए आबकारी विभाग ने 22 गांव के संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चौकीदारों के साथ बैठक की। यह प्राप्त होने पर आबकारी विभाग को तुरंत सूचित करें। सभी चौकीदारों को लोग आबकारी विभाग के कान और आंख बनेंगे। आबकारी आयुक्त के आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर आदेशानुसार जिलाधिकारी गौतम बुद्ध देते हुए ये सुनिश्चित किया गया कि नगर एवम पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध बीट के सिपाही के साथ समय समय नगर के नेतृत्व में जिला आबकारी पर खाली पडे मकानों एसंदिग्ध अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव के

महिला ने पंखे से

लटककर दी जान **गाजियाबाद।** साहिबाबाद इलाके में कौशांबी थाना क्षेत्र के तहत वैशाली कॉलोनी में एक महिला ने अपने आवास पर पंखें से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

पुलिस के मुताबिक पिंकी गुप्ता ो आत्महत्या कर ली। उसने बताया कि पलिस को उसके कमरे से एक डायरी मिली है, जिसमें उसने अपने जीवन के पिछले चार साल की हर घटना के बारे में लिखा था। महिला साकिब नामक शख्स द्वारा चलाए जा रहे जिम में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी और उसके साथ रह

नेतृत्व में दादरी तहसील स्थित ● पुलिस और २२ गांवों बादलपुर थाने पर आबकारी निरीक्षक के चौकीदारों की बैठक हुई सर्किल 7 एवं थानाध्यक्ष बादलपर की उपस्थिति में बादलपुर के अंतर्गत सम्बंधित किसी भी व्यक्ति की अवैध आने वाले 22 गाँव के चौकीदारों की

शराब के कारोबार में संलिप्तता पाए जाने पर तुरंत सूचित करें। आबकारी विभाग द्वारा शराब की तस्करी को लेकर यह निर्णय लिया गया है। जिसमें गांव के चौकीदार आबकारी विभाग की मदद करेंगे। आबकारी अधिकारी ने बैठक करके सभी से कहा कि अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए विशेष रूप से गांव में ध्यान रखें और तस्करी करता है तो स्थलों पर निरीक्षण करें तथा गांव से इसकी सूचना पुलिस को दे।

# नए मास्टर प्लान की स्वीकति के लिए शासन जाएगी जींडीए

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

आपत्तियों के निस्तारण किया था। इसके बाद जीडीए की हाल ही में मास्टर प्लान 2031 को ग्रीन सिग्नल बोर्ड की हुई बैठक में मास्टर प्लान के डाफ्ट को पेश किया गया था। इस पर देने से पहले यूपी सरकार का स्वीकृति लेना होगा। जीडीए बोर्ड की काफी डिटेल के साथ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में मास्टर प्लान का ड्राफ्ट पेश किया गया था। इस डाफ्ट को यपी सदस्यों ने भी इस पर काफी गंभीरता सरकार की कुछ आपत्ति के बाद से विचार किया कि इसमें और क्या जीडीए की ओर से संशोधन करने का अच्छा प्रस्ताव जोड़ा जा सकता है। प्लान तैयार किया गया था। वहीं अब जीडीए का नियोजन विभाग

तीन प्वाइंट को लेकर मास्टर बोर्ड की बैठक में जो राय आई है उसको भी समायोजित किया जा रहा प्लान पर शासन के नियोजन विभाग

ker Registration of Rungt रूंगटा इसिंगेशन लिमिटे-


## सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड

पुनील हेल्थकेयर लिमिटेड पंजीवत कार्यातय : अई/252-ए. विजय टावर, शाहपुरजाट, नई दिल्नी-11049 शीआई एन : एल24302डीएल1973पीएलसी198962/ई-गेल आईडी : info@sumlhealthcare.com/ येव' www.sunihealthcare.com फोन : 1491-1-14935555/00, विश्व : 1491-1-1493555/00, विश्व : 1491-1493555/00, विश्व : 1491-14935067 युपदार दिगांक 27 सितम्बर, 2023 को मध्या. 12.30 बजे/आइंएसटी वीडियो कॉन्क्रेसिंग (वीडी') अध्यता अन्य ऑडियो विश्व अत्र गी वार्षित : 1491-1493555/00, विश्व : 1491-14935067 प्रिददारा शुवना दी लती है कि कम्पनी के सरस्यों की 49ी सांसिक साधारण वेठक युववार, 27 सितम्बर, 2023 को अप. 12.30 बजे/आईएसटी वीडियो कॉन्क्रेसिंग (वीडी) अध्यता व्य-व ऑडियो विजुअल गीन्स (आपेदीएग) के माध्यम से वायोजित की जाएगी, जिसके लिए पंजीकृत कार्यातय इर्ब्र / 252-ए. वियय टावर, र्तीयांत वर्ज पंत्री विजुअल गीन्स का खायरण वेठक युववार, 27 सितम्बर, 2023 को अप. 12.30 बजे/आईएसटी वीडियो कॉन्क्रेसिंग (वीडी) अध्यता व्य-व ऑडियो विजुअल गीन्स का खायरण वेठक युववा सर्वु करा नंब से सी/एबजो/सीएकडी/सीएजी/ युवना में स्थ्रीबद्ध व्यवसात निधानित की सरस्यों का अधि किए पए अनुवादी सर्कुत्सर, विश्व सेवी, 2020, 202, 202 दिनॉकित 5 मई, 2022 तथा 10/2022 दिनॉकित 28 दिसम्बर, 2022 दी, और सेवी दारा जारी कसूंत्र से त्र से सी/एबजो/सीएकडी/सीएकडी/ 2023 के अनुसरण में, कम्पनियों को वॉबिक सामान्य बैठक (एडीएग) का आयोजन, किसी एक स्थान पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के विना, स्थारेत सर्कुल्व के अनुपात्त ने, र्रे विर्य स्थान्य सीनिय, 2013 के पाता 102 कनुसार याध्यात्कक विरण्य सहित, तथा सिये दे-नॉटिंग/ई-वॉडिंग (सीसी) अबया अन्य बॉडियो विजुअत मीन्य सीपियेक राठा करा ये अनुसार विर्य से सीनिक उपसियि के विना, सीरियो कॉन्के स्थान्य को सुर् स्या स्वाहिन कि स्था से वासिक सामान्य बैठक (प्रदीपण) के माप्यम से कनुसी ये क्रं की अनुपात्त कि स्वान्य सीति देन्यते साहित, जन समी सिरक्र सुर्य

SUNLOC

# ्रवरणगणा गणवारंग प्रभव कमनी की वेश्वीहर https://www.rungtairrigation.in/investor-information/download-categ compliance-for-shareholders' से अपनेश्वर कर राजने हैं। भारत प्रभाव को प्रिणिट्ट प्रीणिट (द्वीप्र) वे अपने के से कारजन हैं के प्रभाव देगी हात बुझई गई प्रक्रिय के अनुसर प्रक्रीकृत कल्दर । भूषय ज्ञान के विपन्दि प्रविधिद (द्वीप्र) वे अपनेक से कारजना है के अपनी द्वीप्र प्रविधिक्र का जाता है। भारत के सार्वण के विपन्दि प्रविधिद (द्वीप्र) वे अपनेक के से कारजना है के अपनी द्वीप्र प्रविधिक्र का प्रमान देव स्वयं वोवनिएम के साराम वे स्वीप्र में अपने वीक्र में मार एनसीरद दास लगाव प्रदे अपनी द्वीप्र प्रविधिक्र का प्रमान देव स्वयं वोवनिएम के साराम वे स्वीप्र में उपनिश्च रागी गोवरास्वो/(सराय), सो कु कहना या प्रधन प्रधान माहते हैं, को कमनी की देने साईसी तथा आगे प्रथम प्रयोग में क्रियेन में प्रविधिद क्षिप्र में माहर तथा आगे प्रथम प्रयोग की दे मेल आईसी es@rungtairrigation.in पर भेज दे तथा ताहरे इpeaker Registration o ion Linited होगी भाषिश





तिन सरस्यों के पास सेवर भौतिक ; इतेन्द्रांनिक कप में 5 जोर जिनका ई-नेत सात कम्पनी, उपनेक संयंतित दिप्रोजिटदी पार्टिपीर के पास पंजीबद नहीं है. उपने अनुरोध किया जाता है कि ये सरस्य हास साम्यक हरसावसिर पत्र की रुकेन पति अपना नाम, पूस पता, फोसियो नंदर, कम्पनी के पासित सेवरों की संख्या का प्रत्येख करते हुए पूरी कार्व की प्रदर्श-साहार के पत्र पत्र मां किया ना क्या कि प्रत्ये के सरस्य हास साम्यक आसार कार्ड, ड्राइमिंग लाइसे-स, गिवांचन कार्ड, पासपोरं, यूटिलिटी बिल अप्रधा कम्पनी के पंजीकृत सदस्य के पता प्रमाण के राजर्थन में किसी अन्य सरकारी दासावेच की पंजी क्य-साराय में भाव स्वार (दर्श्वदेधोठाठाठीहरूठाता अप्रधा मार्ट्डस्टार्ट्डसिल्डवीमिताठांडी का मिल अप्रथा में के पंजीकृत सदस्य पंजीकृत करता है, ताकि एजीएम की चुराना तथा 3 मार्न, 2023 को समापा वित्तीत वर्ष देवु वार्षिक सिरो दे दे मेल द्वारा प्राप्त कर सकों कि सदस्यों के पास शेर दीनेद रूप में है, वे अपना इं नेल पता आपनी दिप्रोजिटरी पार्टिसिएंट्स के पास अतरान करना सकते हैं।

नियम 20, सेबी (सूपीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और मारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सोबीय मानक के अनुसरण में, कम्पनी सदस्यों को 49ीं वॉर्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में विपार हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों पर ई-वॉटिंग संसिर्वेश के माध्यम से इंतेल्ट्रॉनिक सामनों द्वारा बोट डातने की सुविधा प्रदान कर रही है। कम्पनी ने रिपोर ई-वॉटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए इंस्टावोट प्लेटफार्ग उपलब्ध कराने हेतु लिंकड्रनटाइम इंडिया प्राइवेट लिभिटेड की सेवाएं जनुबंधित की हैं। वे सदस्य, जो विखेदन तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को मीतिक अथ्या अनिक्ते का है हो एजीएम में सुधीबद्ध व्यवसायों पर अपना तोट लिंक इन्टाइम प्राइवेट लिभिटेड के इलेक्ट्रॉनिक इंस्टावोट प्लेटफार्ग intestiniteme.co.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। सूपीबद कप्यनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वॉटिंग सुविधा के विषय में सेबी सर्कुलर दिनाकित 9 दिसम्बर, 2020 के जनुसरण में, डीमैट रूप में प्रतिबद्ध के धारक व्यतिसार प्रे प्रसारक केतरा कु उटा के वार दियोंगिटरीक तथा विभिन्न 2, यादिस्त प्रकट है, एजीएम प्रतिभुति को घारक व्यतिसार वे राज सकते हैं। सुधीबद्ध कप्यनियों हारा उपलब्ध कराई गई ई-वॉटिंग सुविधा के विषय में सेबी सर्कुलर दिनाकित 9 दिसम्बर, 2020 के जनुसरण में, डीमैट रूप में प्रतिभुतियों के धारक व्यतिसार वे प्रसार के क्लेस 9 जून, 2021 के वाद दियोंगिटरीक वा बादीजिटी पारिसिर्वट्रा के जनुसरण में, डीमैट रूप में प्रतिभुतियों के धारक व्यतिसार वे प्रसार के क्लेस 9 जून, 2021 के वाद दियोंगिटरीक तथा डियोजिटरी पारिसिर्ट्राइडियाजिटरीक सार ब्रिपिटर के पार्व अनुसर के पास अनुराहेत अन दे दा दर देखें। प्रतिभुतियों के धारक व्यतिनार वे प्रेस्ता क्र केत्र 9 क्र 2021 के वाद दियोंगिटरीक वाधि विधाजिटी सार्या होगितर	भेगती होंगी। सभी सदस्यों को सुमित किया जाता है कि : क) रिपोट ई-वोटिंग 27-09-2023 को पहले !	रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके समायोजन की प्रक्रिया साकिब को गिरफ्तार कर लिया है। थी। इसके बाद जीडीए ने भी उन जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अब नक्टशों में बिल्डर नहीं कर सकें या जाएगी। अब नक्टशों में बिल्डर नहीं कर सकें की मदद ली जाएगी जिससे कोई भी
सदस्यगण नोट करें कि : i) रिभोट ई-वोटिंग अवयि रविवार, 24 सितम्बर, 2023 को पूर्वा, 9.00 बजे आरंग होगी तथा गंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को अप. 5.00 बजे समाप्त होगी और उसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूव ई-वोटिंग एजेन्सी द्वारा वोटिंग के लिए निक्रिय कर दिया जाएगा। ii) शेयरपारक द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट उल दिए जाने के बाद, सरस्य को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी। iii) सेरस्यों के बोटिंग अधिकार कम्पनी की प्रदत्त इविबटी शेयर पूंजी में विख्येदन तिथि (कट-ऑफ डेट) अर्थात बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को	के सारक सदस्यों हास अपनाई सा सकती है. जिनके हास अपनी ई-नेल आईडीव पंजीव्या,असाम नहीं करवाई पई है। इस ऐतु सरवामा विदयण जेले कि फोलियो नंबर, डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी. पैन (रकेन प्रति), डीमेंट खाता विवरण मेजना होगा : (डे) रिपोट ई-नोटिंग 29-09-2023 को अप. 500 बजे समपत होनी और तथा उसके बाद सीडीएसएल झास निष्ठिक कर दी जाएमी। सारदा हार किली प्रसास पर एक सार पोट जल निर्देश जाने के बाद, सदरब	े शंजास्य विकाश के मानचित्र से कराए जाएंगे जानचित्र से कराए जाएंगे
उनके रीशरों के अनुपात में होंगे। iii) कोई व्यक्ति, जो एजीएग की सूचना प्रेषित किए जाने के बाव कपनी के शेषर अर्जित करता है तथा कपनी का रावरय बनता है और विष्णेवन तिथि (कट-ऑफ केटे) अर्थात बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 को शेषरवारक है, एजीएम की सूचना के नोट नंबर 20 मे दिए गए रिमोट ई-वोटिंग के अनुदेशों का अनुपालन कर लॉगइन आईटी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। iv) कोई व्यतिग, जिसका नाम ढिमॉजिटरीज द्वारा अनुप्रसित लामाश्री स्वामियों की पंजिका में अथवा सदस्यों की पंजिका में विष्णेदन तिथि (कट-ऑफ ढेट) को दर्व मोयद है. केवल वती व्यतिन सिनेट इ-यानियेंग /वर्षीक सामाग्य बैठक में ई-वोटिंग के माव्यम से वोट झलने की सविधा प्राय	को उसमें कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी; भ) ई वोटिंग चुकिया एणीएम के दौरान भी उन सदस्थों के लिए उपलबख होगी, जिनके द्वारा रिभोट ई-वोटिंग हारा अपना बोट नहीं डाला गया है। वे सरस्य को एजीएम से पूर्व स्थित्य ई-वोटिंग द्वारा अपना बोट ढाल चुके होंगे, वे वीसी/ओएसीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में माग ले सकते हैं. परंतु पुन: अपना बोट ढालने के हकदार नहीं होंगे; 9) केवल वा रूपलि सिपोट ई मोटिंग उसवार पजीएम के दौरान ई वोटिंग की सकिया प्राप्त करने का स्कदार	रियल एस्टेट सेक्टर को विनियमित
करने का हकदार होगा। v) सदस्य रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना बोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, परंतु एजीएम में पुनः अपना बोट डालने के हकदार नहीं होगा। vi) श्री तारा चंद शर्मा, कार्यरत कपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या 5749 और सीपी संख्या 4078 है) तथा नैसर्स जैन शर्मा ऐंड एसोशिएट्स, कप्पनी सेक्रेटरीज, जयपुर के स्वामी, को ई—वोटिंग तथा रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।	0 जेवच पह जासरा रहारा ६ मारिप अस्था एकाएं के पारंभ के पारंभ का पारंभ का पुलसा काल करने का हुआया होगा, जिसका नाम दिणोंगदिशेंक हारा अनुरक्षित लाभाकी स्वामियों आधवा सदस्यों की पॉलिक में, कट-ऑफ शिथि को, दर्ज मौजूद होगा : जो औ वैभव शर्मा, स्वामी मैससे वैभव शर्मा एँड एसोशिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज (सीपी नंबर 10831) को रिमोट ई वोटिंग तथा ई वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया गया है।	अक्सर देखा गया है कि बिल्डर पड़ेगा। प्रमोटर द्वारा परियोजना के अधिनियम का अनुपालन प्रदेश भर में प्राधिकरण से जो नक्शा पास कराते है वास्तविक व स्वीकृत मानचित्र या सुचारु रूप से हो सके। उसके अनुसार वो निर्माण नहीं करते। नक्शे में किसी भी प्रकार का बदलाव परियोजना के नक्शों के सुपर बल्कि ज्यादा कमाने के चक्कर में करना असंभव हो जाएगा और इस इम्मोजीशन से होम बायर्स को भी
vii) यदि भौतिक रूप मे प्रतिमृतियों के धारक शेयरपारकों/सदस्यों/संस्थागत सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई शंका है. वे https://instavucl.linklintime.co.in पर हेल्प वेश्वग के अंतर्गत उपलब्ध बहुद्या पूछे जाने वाले प्रष्ट शा (एकएवर्यूज) तथा इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं अथवा <u>enotices@inklintime.co.in</u> पर ई-मेल मेल सकते हैं अथवा फोन : 022-4918 6000 पर सामर्क कर सकते हैं। सदरयगण dehi@inklintime.co.in. cs@sunilhealthcare.com पर अथवा हमारे आरटीए से भी <u>ra@alankli.com</u> अथवा lalitap@alankli.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।	(3) गदि कोई व्यक्ति रिमोट ई नोटिंग के दिए सीडीएसएक के साथ पहले से पंजीकृत है, तो विवागन तृजर आईडी तथा पासबई / पिन का प्रयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य पासबई गूल जाता है, तो यह www.contignidla.com पर उपलब "Proprot Iter Deniki/Password" का प्रयोग कर पासबर्ड दोवारा बना सकता है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट (i) कम्पनी की वेबसाइट www.deltoncables.com (ii) रीजीरीपराल की वेबसाइट www.cotingindia.com (iii) रटॉक एक्सवेज की वेबसाइट www.bendia.com पर उपलब टोनी।	कॉमन एरिया, ग्रीनरी के साथ प्रक्रिया की मदद से जांच में आसानी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रमोटर खिलवाड़ करते हुए वहां भी निर्माण होगी। पहले फेज में यह प्रक्रिया द्वारा जो नक्शा प्राधिकरण में उपलब्ध करते है। अब ऐसा नहीं होगा। जीआईएस ग्लोबल इन्फॉर्मेशन कराया गया होगा उसी के अनुसार
viii) ईवोटिंग तथा वीसी अथवा ओएवीएम के माध्यम से बैठक में माग लेने के विस्तृत अनुदेशों के लिए, सदस्यों से बैठक की सूचना (विशेषकर नोट नंबर 21) पढ़ने का अनुरोप किया जाता है। आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अविभिन्मम 2013 की घारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और संवालन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेवर अंतरण बहिया बृहस्पतिवार, 21–09–2023 से बुधवार, 27–09–2023 तक (दोनों दिन सहित) कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।	एजीएम से पहले अथवा उसके दौरान किसी संदेह की स्थिति में आप <u>www.exotingindia.com</u> के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध सेयरपारकों के लिए ई–गोटिंग यूजर मैनुअल तथा बहुया पूछे जाने वाले प्रस्न ('एफएसय'पू') का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईल्प सकते हैं। इतेक्ट्रोनिक सायनों हारा गोटिंग के लिए सुविधा संबंधी सभी रिकायतें श्री राकेश रात्थी, प्रबंधन (सीडीएसएल) सेंद्रल डिपॉफिटरी सार्विंग (इडिया) लिगिटेड, ए विंग, 25वां जत से स्वयन प्रवर्णन, प्रियक्ष प्रवृष्ट्रस्	मसलन, प्राधिकरण द्वारा सिस्टम बेस्ड मास्टर प्लान वाले 13 निर्माण प्राप्त होने से होम बायर्स और परियोजना के स्वीकृत मास्टर प्लान शहरों में लागू होगी। जिसमें श्रिमोट प्रमोटर के बीच विवाद की संभावनाएं के नक्शे को राजस्व विभाग के नक्शे सेंसिंग की सटीक तकनीकी का भी नहीं रह जाएंगी। यूपी रेरा को पर सपर इम्पोज कराया जाएगा। उपयोग कर परियोजना के नक्शों को बिल्डर परियोजनाओं के बैंक खातों
बोर्ड के आदेश द्वारा वास्ते सुनीत डेल्बकेयर लिगिटेड हस्ता. /- सत्येन्दु पट्टनाइक पंजीकृत कार्यालय :38ई/252-ए. विजय टावर, शाहपुरजाट, नई दिल्ली-110649 कम्पनी सविव एवं अनुपालन अधिकारी संग्रेडिया : एवट43032(स्त)1973पीएलवी189662 एफ7736 फीन : 491-11-49435555 / 00, फीन : 491-11-4943555	मफतलाल भिल कम्पाउण्ड्स, एनएम जोशी मार्म, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई 400013 को संबोधित की जा राकती हैं अथवा <u>helpdeskevoting@cdslindia.com</u> को ई—मेल मेजी जा राकती है अथवा टोलफ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल की जा सकती है। कृते डेल्टन केबल्स लिमिटेड हरसा./—	इससे प्रमोटर अपनी परियोजना से राजस्व विभाग के नक्शो के ऊपर की सूचना उपलब्ध कराने की संबंधित जो स्वीकृत अभिलेख व सुपर इम्पोजिशन किया जाएगा। जिम्मेदारी प्रमोटर्स के साथ-2 वित्तीय मानचित्र यूपी रेरा में उपलब्ध कराते इससे भविष्य में परियोजना के संस्थानों एवं बैंकों की भी होगी।
एफ7736 फोन : +91-11-49435555 / 00, फैरार : +91-11-43850087 स्थान – नई दिल्ली ड्रै-मेल आईडी : info@sunilhealthcare.com दिनांकित – 02 सितम्बर, 2023 वेबसाइट : www.sunilhealthcare.com	गनः : दिल्ली विकासः रावतः तथिः : 02–09–2023 कम्पनी सचिव तथा अनुपालनाधिकारी	हैं। उन्हें उसी के अनुसार परियोजना मूल नक्शे में किसी भी बदलाव इसके लिए एक गाइडलाइन भी बनाई का निर्माण करने के लिए बाध्य होना सम्बन्धित विवाद में सुपर इंपोस्ड मैप की जा रही है।